

20th May, 2026

**Listing Department
National Stock Exchange of India
Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G. Block,
Bandra- Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400 051**

**The Department of Corporate Services-
Listing
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001**

Symbol- DHANUKA

Scrip Code: 507717

**Sub: Publication copy of Audited Financial Results for the Quarter and Financial
Year Ended on 31st March, 2026.**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith copies of the Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year Ended on 31st March, 2026 published in the following newspapers:

1. Financial Express (English) – All Editions
2. Jansatta- (Hindi) All Editions

The above information is also available on the website of the Company www.dhanuka.com.

We hope you will find the same in order.

Thanking You,
Yours faithfully,

For Dhanuka Agritech Limited

**Jitin Sadana
Company Secretary and Compliance Officer
FCS- 7612**

Encl: a/a



जीई वर्नोवा
(पहले जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)
CIN - L31102DL1957PLC193993
पंजीकृत कार्यालय: ए-18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020
फोन नं: + 91 11 41810660, वेबसाइट: <https://www.governova.com/regions/asia/in/governova-td-india>

जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड
मुख्य उपलब्धियाँ Q4 FY 2025-26

- भारत में 2.5 गीगावाट के खावड़ा-दक्षिण ओलगाटा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना गलियारे के लिए उच्च-वोल्टेज डायरेक्ट करंट वीएससी टर्मिनल स्टेशन की आपूर्ति के लिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड से ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 2x500 मेगावाट प्रपूरपर एचबीडीसी बैंक दू एक बड़े स्टेशन के नवीनीकरण का ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकालने के लिए पीजीसीआईएल से 765 केबी 500 एमपीए इंटरकonneक्टेड ट्रांसफार्मर (आईसीटी) और 765 केबी 110 एमपीएआर रिक्टरों का ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- गुजरात राज्य में एक निजी टीबीसीबी डेवलपर से 765 केबी 500 एमपीए आईसीटी, 765 केबी 110 एमपीएआर रिक्टर और 800केबी / 420केबी / 245केबी जीआईएस के ऑर्डर प्राप्त किए।
- भारत में कई ईपीसी कंपनियों से 765केबी / 400केबी एआईएस उपकरण और ग्रिड ऑटोमेशन पैकेज के ऑर्डर प्राप्त किए।
- यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका को एआईएस / जीआईएस उपकरण निर्यात करने के लिए कई ऑर्डर प्राप्त किए।

चाऊ की गई मुख्य परिचोजनाएं Q4 FY 2025-26

- कर्नाटक के गडग में रिन्यू आरटीएम एक्सटेंशन साइट के लिए 400 / 200 केबी सबस्टेशन का सफल संचालन किया गया।
- नागालैंड के तुएन्सांग में पीजीसीआईएल के लिए 132 / 33 केबी जीआईएस सबस्टेशन का सफल संचालन किया गया।
- बिहार के कटहलगांव में एनटीपीसी के लिए 400 / 132 केबी एआईएस टियरमाईड का सफल संचालन किया गया।
- हिमाचल प्रदेश के कंगू में एचपीपीटीसीएल के लिए 220 / 132 / 33 केबी एआईएस सबस्टेशन का सफल संचालन किया गया।
- रेसोनिया, किश्तवार स्थित संयंत्र में 420 केबी, 1-फेज शंट रिक्टर का सफल संचालन किया गया।
- रेसोनिया, फतेहगढ़ III और व्यावर साइटों पर 765 केबी, 1-फेज शंट रिक्टर को सफलतापूर्वक चालू किया गया।
- पीजीसीआईएल, रामगढ़, भादला III और महेश्वरम स्थलों पर 765 केबी, 1-फेज आईसीटी और शंट रिक्टर को सफलतापूर्वक चालू किया गया।
- दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल इंग डेटा एक्विजिशन (SCADA) सिस्टम को सफलतापूर्वक चालू किया गया।

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही				
		31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.12.2025 (अंतर्यापरीक्षित)	31.03.2025 (अंतर्यापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1.	संचालन से कुल आय	16,742.4	17,193.9	11,736.5	62,971.5	43,548.9
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवादवात्मक और / या असाधारण मदों से मुक्त)	4,630.0	4,590.1	2,561.2	17,132.9	8,196.7
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अप्रवादात्मक और / या असाधारण मदों से बाद) (टिप्पणी ग देखें)	4,687.3	3,897.1	2,561.2	16,497.2	8,196.7
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अप्रवादवात्मक और / या असाधारण मदों से बाद)	3,517.7	2,908.0	1,864.9	12,332.5	6,083.3
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) के लिए लाभ हानि मिलाकर]	3,249.0	2,804.2	1,615.2	10,476.0	5,813.7
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	512.1	512.1	512.1	512.1	512.1
7.	आवृत्ति (पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि वर्ष वर्ष के अकेलित तुलना त्रय में दर्शाई गई है	-	-	-	26,390.8	17,219.0
8.	अवधि के लिए मुद्रा और अनुकूल इपीएस (प्रत्येक ₹ 2 का अंकित मूल्य) (₹ में)	13.74	11.36	7.28	48.16	23.76

*31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों पर वितीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और वितीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष तक के आंकड़ों के बीच संतुष्टि आंकड़े हैं। इसके अलावा, तीसरी तिमाही के अवत तक के सांख्यिकी की समीक्षा की गई और ऑडिट के अंतर्गत नहीं किया गया है।

क) उपर्युक्त, लेबी (यूरोपीयन दायित्व एवं प्रकटन अधिनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए प्रस्तुत किए वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप को एकीकरण किया गया है। वितीय परिणामों का पूर्ण प्रसार कंपनी की वेबसाइट <https://www.governova.com/regions/asia/in/governova-td-india> तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

ख) उपर्युक्त लेखापरीक्षित परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा उसे दिनांक 18 मई, 2026 को अवधिगत निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया। 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए परिणाम कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जा चुका है।

ग) 21 नवंबर, 2025 को भारत सरकार ने चार श्रम संहिताएं अधिनियमित कीं - मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों संहिता, 2020 - जिनमें 29 मौजूदा श्रम कानूनों को एकीकरण किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा नियमों और सामान्य प्रश्नों पर (FAQ) के आधार पर, कंपनी ने इनके वितीय प्रभावों का अनुमान लगाया है और 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नी महीनों के लिए 693.0 मिलियन रुपये का अतिरिक्त प्रभाव का किया है।

तीसरी श्रम कानूनों से संबंधित घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखा रही है और नए बतन कानूनों के संघर्ष प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

निम्नलिखित दौरान किए गए पुनर्मुल्यांकन / एक्जुग्रेटिव मूल्यांकन का प्रभाव 57.3 मिलियन रुपये कम हो गया था, जिसे 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्तमान तिमाही में उलट दिया गया है। प्रभाव की गभीरता, निष्पादनीय प्रभाव और गैर-आवृत्ति प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने इस प्रभाव को "असाधारण मद" के तहत प्रस्तुत किया है।

घ) निदेशक मंडल ने 18 मई 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक में 31 मार्च 2026 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹ 10 (प्रत्येक शेयर का अंकित ₹ 2 रुपये) के अंतिम लामांश की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।



जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड
(पहले जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)
(संदर्भ संख्या)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 08510312

स्थान : नोएडा
दिनांक: 18 मई 2026

डायोन ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड
सीआईएन नं.: L74899DL1994PLC058032
पंजीकृत कार्यालय: डीए-18, ऊपरी मंजिल, विकास मार्ग, शंकरपुर, दिल्ली-110092

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष समाप्ति हेतु लेखापरीक्षित स्टेट्सअलोन वितीय परिणामों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	तिमाही समाप्ति				
		मार्च 31, 2026 (विस्थापरीक्षित)	दिसम्बर 31, 2025 (अंतर्यापरीक्षित)	मार्च 31, 2025 (लेखापरीक्षित)	मार्च 31, 2026 (लेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्ति मार्च 31, 2025 (लेखापरीक्षित)
I	राजस्व	277.16	373.81	336.63	1226.40	1047.28
II	अन्य आय	6.75	3.07	5.63	15.77	14.98
III	कुल राजस्व (I+II)	283.91	376.88	342.26	1,242.17	1,062.26
IV	व्यय					
	कर्मचारियों लाभ व्यय	219.06	224.88	214.69	922.77	885.45
	व्याज	7.34	7.56	6.76	29.38	26.72
	गाया और परिवहन	3.84	1.68	0.73	8.05	4.26
	वित्त लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मूल्यवर्धन और परिशोधन व्यय	1.74	1.70	1.75	6.81	7.24
	अन्य व्यय	67.69	72.17	60.37	264.00	234.62
	कुल व्यय (IV)	299.67	307.99	284.30	1,231.01	1,158.29
V	असामान्य मदों और कर से पहले लाभ / (हानि)	(15.76)	68.89	57.96	11.16	(96.03)
VI	असाधारण मदें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	कर से पहले लाभ / (हानि)	(15.76)	68.89	57.96	11.16	(96.03)
VIII	कर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	कर के बाद लाभ / (हानि)	(15.76)	68.89	57.96	11.16	(96.03)
X	अन्य व्यापक आय					
	(i) में मई दिवस: लाभ या हानि से पुनर्गठित नहीं किया जाएगा					
	परिभाषित लाभ योगदानों पर पुनर्गठन लाभ / (हानि)	14.57		8.51	14.57	8.51
XI	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)	(1.19)	68.89	66.47	25.73	(87.51)
XII	मुद्रातल की गई इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर)	3,222.74	3,222.74	3,222.74	3,222.74	3,222.74
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय					
	मूलभूत (₹)	(0.00)	0.21	0.21	0.08	(0.27)
	तत्कालिक (₹)	(0.00)	0.21	0.21	0.08	(0.27)
XIV	मुद्रातल से पहले आय और परिशोधन व्यय, वित्त और/या असाधारण आइटम, कर व्यय (इंजीनियरिंग)	(14.02)	70.59	59.71	17.97	(88.79)

- परिणाम के लिए नोट्स:**
- उपरोक्त सेबी (यूरोपीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दायित्व तिमाही लेखापरीक्षित वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही समाप्त लेखापरीक्षित वितीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.dionglobal.com पर उपलब्ध है।
 - मेसर्स डायोन ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड के खिलाफ दिवाता और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के तहत दिवाला और दिवालियापन (व्यापिक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2016 के नियम 6 के साथ माननीय एनसीएलटी दिल्ली के समक्ष कोर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने की प्रक्रिया के साथ एक आवेदन दायर किया गया था। कोर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए उक्त आवेदन को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून व्यापकिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली बेंच, (माननीय एनसीएलटी / माननीय व्यापकिकरण प्रक्रिया) ने आदेश दिनांक 18.08.2020 को मध्यम से स्वीकार कर लिया है। आईबीसी कार्यवाही के तहत, बोर्ड की शक्ति 18.08.2020 से निरस्त कर दी गई थी। एनसीएलटी के आदेश में 18.08.2020 से कोर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के पूरा होने तक या धारा 31(1) के तहत समाधान योजना को मंजूर मिलने तक या धारा 33 के तहत कंपनी के परिणामपत्र में लिए आदेश पारित होने तक, जो भी पहले से, ध्यान का प्रभाव किया गया है। वर्तमान में, कंपनी के संबंध में सीआईआरपी प्रक्रिया प्रगति पर है। दिवाला संहिता की धारा 20 के अनुसार, कंपनी का प्रबंधन और संचालन अवधि समाधान पेशेवर (आईआरपी) / समाधान पेशेवर (आईपी) द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है।
 - कंपनी के सभी कार्यकारी निदेशक, सीएफओ और कंपनी सचिव ने सीआईआरपी के शुरू होने से पहले कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। इन संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति में, जो मुख्य रूप से बुक क्लोजर प्रक्रिया और वितीय रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार हैं, समाधान पेशेवर ने कंपनी के मौजूदा कर्मचारियों और सलाहकारों को काम पर रखकर ये वितीय विवरण तैयार किये गए हैं। इन वितीय विवरणों के समाधान पेशेवर ने कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिकॉर्ड पर लिया है। जो उसे संहिता की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है। समाधान पेशेवर ने इन वितीय विवरणों को केवल अनुमान और संहिता के तहत अपने कांय का निवेदन करने के उद्देश्य से संप्रदायानुसृत रिकॉर्ड पर लिया है।
 - सेबी (एक्सबीआर), 2015 के नियमन 33(3)(डी) के अनुसार, यदि यूरोपई इकाई की सहायक कनिष्ठा हैं, जो उसे वार्षिक ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन वितीय परिणाम प्रस्तुत करते समय ऑडिट रिपोर्ट के साथ वार्षिक ऑडिट किए गए समीक्षा वितीय परिणामों भी प्रस्तुत करने होंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निजीव्युत्पन्न प्रोफेशनल को अपनी शक्तियों में केवल कोर्पोरेट दस्तावेज के प्रबंधन पर निर्भर होगा, न कि उसकी सहायक कंपनी, सहयोगी या किसी अन्य समूह कंपनियों पर। इसलिए स्टैंड एक्सचेंज के साथ केवल स्टैंडअलोन ऑडिट किए गए वितीय परिणामों को जमा किए जाते हैं।
 - सेबी (लिटिंग) दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियमन 33(2)(बी) के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत कंपनी के वितीय परिणामों पर अंकित या प्रकट निदेशक या वार्षिक निदेशक द्वारा आयोजित किए जाएंगे 18 अगस्त 2026 से शुरू हुई कोर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संदर्भित निदेशक मंडल की शक्तियों को निरस्त कर दिया गया है और ये शक्तियों को माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली द्वारा 18.08.2020 को पारित आदेश के अनुसार कंपनी के समाधान पेशेवर के पास स्थित है। तदनुसार, 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के उल्लेख वितीय परिणामों को रिकॉर्ड पर लिया गया और समाधान पेशेवर द्वारा संबंधित अधिकारियों को जारी करने के लिए अधिस्तुत किया गया।
 - उपरोक्त परिणामों में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन विधियों के माध्यम या पर मान्य विधियों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निश्चित भारतीय प्रत्यक्ष माध्यम के माध्यम से आयोजित किए गए हैं। निम्नलिखित विवरणों में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन विधियां सम्मिलित हैं, तथा ये सेबी (यूरोपीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (समूह-समूह पर संशोधित) के विनियम 33 के अनुसार हैं।
 - 31 मार्च 2026 तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाहियों के आंकड़ों, संबंधित पूर्ण वितीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा 31 मार्च 2026 एवं 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष-से-तिथि आंकड़ों के बीच संतुलनता आंकड़े हैं। निम्नलिखित समीक्षा की गई है।
 - कोर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्राप्त समाधान योजना को अग्रदस्तावेजों की समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा इसे माननीय एनसीएलटी को प्रस्तुत कर दिया गया है। मामल अभी भी अंतिम अनुमोदित किए गए माननीय एनसीएलटी के पास स्थित है।
 - युक्ति कंपनी सॉफ्टवेयर उपाय और सेवा व्यवसाय में है, इसलिए साइबर सुरक्षा उपाय तिमाही और तिमाही निम्न हो सकता है।
 - कंपनी मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर उत्पादन और सेवाओं के व्यवसाय में लगी हुई है, जिनमें प्रमुख की राय में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित "अभिलेखित समेत" पर दंड और 108 के अनुसार एक्साइट रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड माना जाता है।
 11. पिछली तिमाहियों के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान तिमाहियों के वार्षिक/प्रकटीकरण के अनुकूल पुन: समूहीकृत / पुनर्गठित किया गया है।



डायोन ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड हेतु हस्ता/-
प्रवीण कुमार लखनवी
समाधान पेशेवर

दिनांक: 19.05.2026
स्थान: नई दिल्ली

पंजीकरण नं: IBB/IIPA-011/UP-P00541/2017-2018/10966



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
एक नवकरण कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)
A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)
एनएसडी नई एनबीई लिस्टिंग सूची का अंग्रेजी इंडिया स्टॉक एक्सचेंज (एनएसडी) बोर्ड में उल्लेख है।
ई-टेंडर के लिए आमंत्रण

कोनॉकर ओएन ई-टेंडर (सिगल बिक सिस्टम) के लिए ई-बिड आमंत्रित करने हैं, जिसका विषय है: 1. MMPLP-CGMV भारत, गुजरात में अतिरिक्त और नगर अंतर्गत सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिए वार्षिक एक्सचेंज अनुबंध।

टेंडर का खोला बिबरन इस प्रकार है:

विस्थापन कक्षा	CONFF/O&MMMLP-CGMV/IA-WIE-56622/2026
कुल अनुमानित लागत	₹ 60,52,534.00 (GST सहित)
लिमिटेड दस्तावेजों की लागत (अप्रतिबंध)	₹ 1,120/- (सभी शुल्क सहित) ई-मुद्रातल के माध्यम से
लिमिटेड प्रोपोजिट शुल्क (अप्रतिबंध)	₹ 3,540/- (सभी शुल्क सहित) ई-मुद्रातल के माध्यम से
अनुकूल शर्तें	₹ 12,051/- (सभी शुल्क सहित) ई-मुद्रातल के माध्यम से
लिमिटेड बिली की तिथि (अनंततानु)	20.05.2026 को 17:00 बजे या 08/06/2026 को 17:30 बजे तक
जमा करने की अंतिम तिथि और समय	10.06.2026 को 14:00 बजे तक (केवल ई-टेंडरिंग में)
लिमिटेड बिली की तिथि और समय	10.06.2026 को 15:00 बजे

पत्राचार मानक और अन्य विवरणों के लिए संगठन टेंडर दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwinzard.com/COL से देखें और डाउनलोड किए जा सकते हैं। टेंडर सूचना वेबसाइट www.concorindia.co.in और शर्तविवरण खरीद पेटल (<http://procurement.gov.in>) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कोल्लेक्शन से अनुबंध है कि ई इन वेबसाइट पर निर्दिष्ट रूप से डिजिट करेंगे।

यु.प. नवकरण नैनेजर / P&S/Area-II

सूचना

स्पाइफिक फूड्स एलएलपी के संबंध में

जिसका पंजीकृत कार्यालय B-42, प्रथम तल, विशाल एन्क्लेव, राजाजी गार्डन, नई दिल्ली, भारत - 110027 में स्थित है।

एनएडआर आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 17 एवं 21 के अंतर्गत, अपने पंजीकृत कार्यालय को "राज्य नई दिल्ली" से "राज्य उत्तर प्रदेश" में स्थानांतरित करने हेतु केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है।

प्रस्तावित नया पता निम्नलिखित होगा:

194-B इंडस्ट्रियल एस्टेट, दावा नगर, कानपुर - 208022

यदि किसी व्यक्ति के हित इस प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर Investor Complaint Form दाखिल करके अथवा शपथपत्र सहित अपनी आपत्तियाँ, जिनमें उसके हित की प्रकृति एवं विरोध के आधार स्पष्ट रूप से वर्णित हों, क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) को पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता/सकती है। इसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजी जानी चाहिए।

दिनांक: 19-05-2026
स्थान: नई दिल्ली

सुरक्षित कुमार गुप्ता
नामित भागीदार (Designated Partner)



John Oaky and Mohan Ltd
Regd office: Office No 4 FF, CSC, Pocket E Market,
Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091
CIN : L115549DL1962PLC003726
E mail: oakeymohan@gmail.com Website: www.oakeymohan.in
Phone : 0120-2657298

NOTICE TO SHAREHOLDERS
(Special Window for Transfer and Dematerialization of physical securities)

In accordance with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"/Circular No.HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-PDI/3750/2026 dated January 30, 2026, ("SEBI Circular") shareholders of the Company are informed that a special window has been opened for a period of one year from February05, 2026 to February 04,2027 for transfer and dematerialization ("dema") of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019.

Shareholders may please note that this special window is also available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/ returned/ not attended due to deficiencies in documents/process/otherwise.

These securities are transferred/shall be mandatorily credited to the transferor's demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the transfer process. The securities must have original security certificate and mandatorily provide the necessary document(s) as mentioned in above said SEBI Circular along with original security certificate while lodging the documents for transfer without RTA.

Please note that the cases involving disputes between Transferor and Transferee will not be considered in this window and may be settled by Transferor and Transferee through court/NCLT process. Eligible Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company namely: Beatal Financial & Computer Services (P) Ltd., Beatal House, 3rd Floor, 99 Madangir Behind Local Shopping Centre New Delhi-110062 or at e-mail id beatal@beatalfinancial.com or contact the Company at oakeymohan@gmail.com

Eligible shareholders are requested to submit their transfer requests duly complete in all respects on or before the February 04, 2027.

For JOHN OAKY AND MOHAN LIMITED
Sd/-
Rajesh Kumar Yadav
Company Secretary
AS1498

Date: May 19, 2026
Place: New Delhi

DCM SHRIRAM FINE CHEMICALS LIMITED
CIN : U24296DL2021PLC387429
Regd. Off.: 6th Floor, Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi-110001
Tele.: 011-43745001, E-mail: chemicals@dsfcl.com, website: www.dsfcl.com

Statement of unaudited/audited financial results for the Quarter and Financial year ended March 31, 2026

Sl. No.	PARTICULARS	Standalone		Year ended		Consolidated		Year ended	
		31.03.2026 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 Refer Note 2	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 Refer Note 2	31.03.2026 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 Refer Note 2
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
1.	Total Income from Operations	9,351	9,759	11,384	38,771	43,221	9,382	9,776	11,410
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(482)	(139)	572	(413)	2,487	(452)	(122)	598
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(482)	(139)	572	(413)	2,487	(452)	(122)	598
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(408)	(162)	427	(429)	1,845	(383)	(149)	442
5.	Total Comprehensive Income/(Loss) (comprising Net Profit/(Loss) & Other Comprehensive Income/(Loss) after tax)	(426)	(169)	429	(469)	1,816	(401)	(156)	444
6.	Equity Share Capital	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740
7.	Other Equity	-	-	-	18297	18767	-	-	19361
8.	Basic and diluted earnings per share (₹) (Not annualised)	(0.47)	(0.19)	0.49	(0.49)	2.12	(0.44)	(0.17)	0.51

Notes:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 19, 2026. The financial results for year ended March 31, 2026 have been subject to audit by the Statutory Auditor of the Company pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The financial results of the Company have been prepared

ASSOCIATED ALCOHOLS & BREWERIES LIMITED

CIN: L15520MP1989PLC049380

Corporate / Regd. Office: 4th Floor, BPK Star Tower, A.B. Road, Indore-452 008 (M.P) Phone : 0731-4780400
E-mail: investorrelations@aabl.in, Website: www.associatedalcohols.comAUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

In accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of Associated Alcohols & Breweries Limited based on the recommendation of the Audit Committee, has approved the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter and Year ended 31st March, 2026 at its meeting held on 18th May, 2026.

The Audited Financial Results, along with the Audit Report issued by the Statutory Auditors, are available on our company's website: <https://associatedalcohols.com/financial-results/>. The same can also be accessed by scanning the QR Code below:



For Associated Alcohols & Breweries Limited

Prasann Kumar Kedia
Managing Director
DIN: 00738754Place: Indore
Date: 19th May, 2026Regd. Office: 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001
Tel: 022 2272 1233/34
CIN: L67120MH2005PLC155188
Website: www.bseindia.com | Email: bse.shareholders@bseindia.com

INFORMATION REGARDING THE TWENTY-FIRST ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")

Shareholders may please note that the Twenty-First Annual General Meeting ("AGM") of BSE Limited ("the Company") will be held on **Wednesday, August 19, 2026 at 03:00 PM (IST)** through VC/ OAVM, without physical presence of the Shareholders at a common venue, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), read with relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws, to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the AGM.

The Notice of the 21st AGM and Annual Report for FY 2025-26 will be sent by electronic mode to those Shareholders whose email IDs are registered with the Company's Registrar and Transfer Agent i.e., KFin Technologies Limited ("RTA")/ Depository Participant(s) ("DP"). The same will also be available on the website of the company at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com (where the securities of the Company are listed) and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com.

Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of Listing Regulations, a communication shall be sent to shareholders whose email IDs are not registered with RTA/DP, providing the weblink of Company's website from where the Annual Report for FY 2025-26 can be accessed.

The Company shall send a physical copy of the Annual Report only upon specific request received from the registered email ID of the shareholder at bse.shareholders@bseindia.com, mentioning their Folio No/DPID and Client ID.

Manner of participation in AGM and casting of vote through e-Voting:

Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and will have an opportunity to cast their votes on the businesses set out in the Notice through remote e-Voting and e-Voting during the AGM. Detailed instructions for attending the AGM and casting votes will be provided in the Notice of the AGM.

Manner of registering/ updating email IDs to receive the Notice of 21st AGM along with the Annual Report:

Shareholders who have not updated their email IDs with the DP/RTA, are requested to update the same on or before **Friday July 17, 2026**, to receive the Notice of 21st AGM along with the Annual Report.

Final Dividend and Tax on Dividend:

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 7, 2026, has recommended a **final dividend (FY 2025-26) of ₹ 10/-** per equity share of ₹ 2/- each for FY 2025-26. The Company has fixed **Friday, July 10, 2026**, as the Record Date for determining the entitlement of shareholders. The dividend, if approved by the shareholders at the ensuing AGM, will be paid on or before **Thursday, September 17, 2026**, subject to deduction of tax at source, as applicable.

In terms of SEBI regulations and applicable circulars, dividend will be paid through electronic mode only. Shareholders are requested to ensure that their bank details are updated with their DP/RTA to enable timely receipt of dividend.

Dividend income is taxable in the hands of the Shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct Tax at Source ("TDS") at the time of payment. To enable application of appropriate TDS rates, Shareholders are requested to submit the prescribed documents in accordance with the Act either on the RTA portal at <https://ris.kfintech.com/client-services/investors/taxforms.aspx> or e-mail scanned copies to inward.ris@kfintech.com on or before **Thursday, July 30, 2026**. TDS rates vary for resident and non-resident shareholders. In case of any change in the residential status, shareholders are advised to update the same in their demat account or the physical folio before the **Record Date i.e., July 10, 2026**. Detailed information of TDS is available on the Company's website at <https://www.bseindia.com/investor-relations/annual-reports>.

Manner of registering KYC including e-mail IDs and bank account mandate for receiving Dividend and other Shareholder's Communication:

SEBI has mandated submission of PAN, KYC details and nomination by holders of physical securities. With effect from April 1, 2024, shareholders holding shares in physical form whose folios are not updated with PAN, contact details, bank account details, mobile number, email ID and signature shall be eligible for any payment, including dividend, only through electronic mode and upon completion of KYC requirements.

Accordingly, dividend in respect of such non-KYC compliant folios as on the Record Date, i.e., July 10, 2026, shall be withheld and released only upon completion of KYC compliance.

Shareholders holding shares in physical form are requested to submit their PAN, KYC and nomination (optional) details by sending a duly filled and signed Form ISR-1, ISR-2, ISR-3 or SH-13, as applicable, to the Company's RTA or by email to inward.ris@kfintech.com from their registered email ID.

Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to update their bank details and email IDs with their DP. This Notice is issued for the information of the shareholders of the Company in compliance with the applicable regulatory requirements.

For BSE Limited

Sd/-

Vishal Bhat
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. A41136

Mumbai, May 19, 2026



R K SWAMY LIMITED

Regd Office: No. 19, Wheatcrafts Road, Nungambakkam,
Chennai 600 034, Tamil Nadu, India
CIN: L74300TN1973PLC006304,
Email id: secretarial@rkswamy.com,
Website: www.rkswamy.comSTATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED
& STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER AND YEAR ENDED
MARCH 31, 2026

(Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

The Board of Directors at its meeting held on May 19, 2026 approved the audited financial results of the Company (Consolidated & Standalone) for the quarter and year ended March 31, 2026 ("Financial Results").

The Financial Results along with the Audit Reports (Consolidated & Standalone), are available on the Company's website at https://www.rkswamy.com/pdf/RKS_Financial_Results_Q4_2025-2026.pdf and on the websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The Financial Results can also be accessed by scanning QR code given below.

For and on behalf of the Board of Directors
R K SWAMY LIMITED

Sd/-

Narasimhan Krishnaswamy
Managing Director and Group CEO
DIN: 00219883Place: Mumbai
Date: May 19, 2026

United Foodbrands Limited

United Foodbrands Limited
(Formerly known as Barbeque-Nation Hospitality Limited)

CIN: L55101KA2006PLC073031

Registered Office: "Saket Callipolis", Unit No. 601 & 602, 6th Floor, Doddakannali Village, Varthur Hobli, Sarjapur Road, Bengaluru-560035.
Tel. No.: +9180 69134900; E-mail: compliance@ufbl.in | Website: www.unitedfoodbrands.in

Advertisement regarding approval of Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2026

[Pursuant to Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

The Board of Directors of the Company, at their meeting held on May 19, 2026, have, inter-alia, considered and approved the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2026 ("Financial Results").

The Financial Results, along with the Auditor's Reports thereon issued by the Statutory Auditors of the Company, are available on the Company's website at <https://api.barbequenation.com/sites/default/files/2026-05/Financial%20Results-Q4FY26.pdf>, and can be accessed by scanning the QR provided below. The Financial Results are also available on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

For United Foodbrands Limited
(Formerly known as Barbeque-Nation Hospitality Limited)Rahul Agrawal
Chief Executive Officer & Whole-Time Director
DIN: 07194134
Place: Bengaluru
Date: May 19, 2026Scan this QR Code
for full Financial ResultsOM FREIGHT FORWARDERS LIMITED
(Formerly known as Om Freight Forwarders Private Limited)Registered Office : 101, Jayant Apts. 'A' Wing, Opp. Sahar Cargo Complex, Sahar, Andheri East,
Mumbai - 400099, Maharashtra | CIN: L43299MH1995PLC089620
Tel No: 022 - 680 99 999 | Website: <https://omfreight.com/> | Email: investors@omfreight.com

NOTICE TO THE POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended (Rules), read with the General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 09/2023 dated 25th September, 2023, 9/2024 dated 19th September, 2024 and the latest one being General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and any other applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Circulars and Notifications issued there under (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has electronically, on 19th May, 2026, sent to the Members, who have registered their e-mail IDs with Depository Participant(s) or with the Company, the Notice of Postal Ballot dated 13th May, 2026, together with an Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Nitin. R. Joshi, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to conduct the postal ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The details of resolutions proposed to be passed are as follows:

Sr. No.	Particulars	Type of Resolution
1.	Approval for the reappointment of Mr. Rahul J Joshi As Chairman & Managing Director of The Company and payment of remuneration to him.	Special Resolution
2.	Appointment of Mr. Keval M. Shah (DIN 07649694) as (Non-Executive & Independent Director) of the Company.	Special Resolution

Members are hereby informed that:

- The cut-off date for the purpose of determining the eligibility of members to cast their vote through remote e-voting facility is Friday, 15th May, 2026. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility to its members.
 - The members whose names appear in the register of members, register of beneficial owners as on the Cut-off date shall only be entitled to avail the remote e-voting facility, a person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
 - In compliance of statutory provisions, the electronic copies of Postal Ballot Notice, along with explanatory statement and E-Voting instructions has been sent by the Company through E-mail, on Tuesday, 19th May, 2026 to all those members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depositories and whose names appear in the register of members/ register of beneficial owners as on the Cut-off date.
- Further, a physical copy of the Notice along with an explanatory statement and Postal ballot form has not been sent to the members for this Postal ballot. Hence, the members are required to communicate their assent/dissent only through remote e-voting system. Further, if any member wants the physical copy of the Postal Ballot Notice, the same shall be sent to those shareholders who request for the same by e-mail on investors@omfreight.com
- The remote e-voting period shall commence at 09:00 AM (IST) on Friday 22nd May 2026, and end at 05:00 PM (IST) on Saturday, 20th June 2026. The remote e-voting module will be disabled thereafter by NSDL. Remote e-voting beyond the said date and time shall not be allowed and votes cast thereafter shall be treated as invalid. Once the vote on a resolution is cast by a Member, they shall not be allowed to change it subsequently to cast the vote again. The detailed procedure/instructions for e-voting are specified in the Notes to the Postal Ballot Notice of the Company dated 13th May, 2026, which is published on the website of the Company, NSDL, BSE Limited ('BSE') and the National Stock Exchange of India Limited ('NSE'). The resolutions, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date specified for remote e-voting.
 - The aforesaid Notice along with explanatory statement available on the website of the Company <https://omfreight.com/> website of e-voting agency at www.evotingnsdl.com and websites of Stock exchanges i.e BSE Limited ('BSE') and the National Stock Exchange of India Limited ('NSE').
 - Members holding shares in electronic form are requested to register/update their E-mail with the respective depository participants.
 - In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on : 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager – NSDL at evoting@nsdl.com
 - The results of the Postal Ballot, along with Scrutinizer's Report, will be declared within the statutory timelines by placing the same on the website of the Company i.e., <https://omfreight.com/> and e-voting agency www.evoting.nsdl.com. Further the results shall also be communicated to the Stock exchanges i.e BSE Limited ('BSE') and the National Stock Exchange of India Limited ('NSE') simultaneously.

For and on behalf of,
Om Freight Forwarders Limited
(Formerly known as Om Freight Forwarders Private Limited)
Sd/-
Mr. Harnesh Rahul Joshi
Executive Director
DIN: 00123583Place: Mumbai
Dated: 20th May, 2026

ORKLA INDIA LIMITED

(Formerly known as Orkla India Private Limited and MTR Foods Private Limited)



EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Rs. in millions except EPS)

Sr. No	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	6,299.1	6,011.5	25,051.5	24,308.1	6,407.5	6,099.6	25,505.7	24,552.4
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	985.1	920.2	3,948.2	3,865.7	988.3	929.9	3,995.0	3,890.9
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	976.9	583.8	3,781.6	3,529.3	980.1	593.5	3,828.4	3,554.5
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	733.9	347.9	2,817.6	2,539.4	734.3	352.4	2,856.7	2,556.9
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	735.1	319.9	2,799.4	2,500.1	747.3	323.9	2,858.0	2,521.3
6	Equity Share Capital (Face Value Re. 1/- per share)	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited Balance Sheet	-	-	27,280.7	24,434.0	-	-	27,363.3	24,458.0
8	Earnings Per Share (Face Value of Re. 1/- per share)*								
	- Basic	5.4	2.5	20.6	18.5	5.4	2.6	20.9	18.7
	- Diluted	5.4	2.5	20.6	18.5	5.4	2.6	20.8	18.7

*Not annualised for the interim periods

NOTES:

- The financial results of the quarter and year ended March 31, 2026 were reviewed by the Audit Committee on May 19, 2026 and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 19, 2026.
- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended March 31, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid financial results is available on the websites of BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and at the Company's website at <https://www.orklaindia.com/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/Q4-and-FY-26-Financial-Results.pdf>. The same can also be accessed by scanning the Quick Response Code (QR) provided below.
- The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended, read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and other accounting principles generally accepted in India.
- The statutory auditors have issued an unmodified report on the aforesaid financial results.



for and on behalf of the Board

Sanjay Sharma
Managing Director & Chief Executive Officer
DIN: 02581107Place : Oslo, Norway
Date : May 19, 2026Regd. Office: No.1, 2nd and 3rd Floor, 100 Feet Inner Ring Road, Ejjipura, Ashwini Layout, Vivek Nagar, Bengaluru - 560047, Karnataka, India, CIN: L15136KA1996PLC021007,
Website: www.orklaindia.com, E-mail ID: investors@orklaindia.com, Telephone No: +91 80 4081 2100/7

Adfactors 81/26



DHANUKA AGRITECH LIMITED

CIN: L24219HR1985PLC122802

Registered & Corporate Off.: Global Gateway Towers, Near Guru Dronacharya Metro Station,
M G Road, Gurugram - 122 002, Haryana.
Tel. No.: 0124 4345000 | Email: investors@dhanuka.com | Website: www.dhanuka.comEXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2026	31.03.2025	31.03.2026	31.03.2025
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	50,386.31	45,317.88	2,06,280.10	2,07,125.67
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax (before Exceptional and/or Extra ordinary items)	12,831.14	10,166.24	37,856.07	39,214.07
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	12,831.14	10,166.24	37,856.07	39,214.07
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	9,777.06	7,550.23	28,723.49	29,696.03
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive Income (OCI) after tax]	9,870.90	7,691.26	28,817.33	29,837.06
6	Paid-up Equity Share Capital [Face value of ₹2/-per Equity Share]	901.57	901.57	901.57	901.57
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance sheet of previous year)	-	-	1,67,286.30	1,39,370.54
8	Earning Per share (for continuing and discontinued operations) (of ₹2/- each) (not annualised)				
	- Basic EPS (in ₹)	21.69	16.74	63.72	65.55
	- Diluted EPS (in ₹)	21.69	16.74	63.72	65.55

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2026 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended Financial Results are available on the website of BSE & NSE where the Company's shares are listed i.e. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website, www.dhanuka.com.
- The Board of Directors have recommended final dividend of 100% i.e. ₹2 per Equity Share for the Financial Year 2025-26, subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting.
- The Board of Directors of the Company in its meeting held today has approved the proposal for the buyback of 5,00,000 Equity Shares of the Company at a price of ₹1400/- (₹ Fourteen Hundred only) per Equity Share for an aggregate amount of ₹70 Crores (₹ Seventy Crores Only) for cash (the "Buyback"), excluding transaction costs, by way of Tender Offer through the stock exchange mechanism. The Buyback is subject to all applicable statutory approvals.
- The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in their Meeting held on May 19, 2026. The statutory auditors of the company have expressed an unmodified audit opinion on these Results.

For and on behalf of the Board
Dhanuka Agritech Limited
Sd/-
(M.K. Dhanuka)
Chairman
DIN : 00628039Place: Gurugram (Haryana)
Date: May 19, 2026